

तुरंत रिलीज के लिए

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने सामुदायिक सुरक्षा और आपराधिक रोकथाम के लिए प्रांतीय फंडिंग का स्वागत किया

ब्रैम्पटन, ओन्टैरियो (24 जनवरी, 2020) – आज, सिटी ऑफ ओन्टैरियो ने ओन्टैरियो सरकार द्वारा, सामुदायिक सुरक्षा संबंधी पहलकदमियों को मजबूत बनाने वाले संसाधनों में वृद्धि करने के लिए पील रीजनल पुलिस (Peel Regional Police) के लिए \$20.5 मिलियन की फंडिंग की घोषणा का स्वागत किया।

घोषणा के दौरान, मेयर पैट्रिक ब्राउन, जो पील पुलिस सर्विसिज बोर्ड (Peel Police Services Board) के सदस्य हैं, ने इस निवेश के महत्व के बारे में बात की। यह निवेश, पील रीजनल पुलिस के कम्युनिटी मोबिलाइजेशन प्रोग्राम (Community Mobilization Program) और ओन्टैरियो की गन, गैंग्स और हिंसा को कम करने की कार्यनीति (Guns, Gangs and Violence Reduction Strategy) का समर्थन करता है।

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन ने अधिक मजबूत और सुरक्षित समुदायों के निर्माण में अधिक सहयोग का लगातार समर्थन किया है। 2019 के एसोसिएशन ऑफ म्युनिसिपल्टीज ऑफ ओन्टैरियो (ए.एम.ओ.) (Association of Municipalities of Ontario) (AMO) वार्षिक सम्मेलन में, मेयर के नेतृत्व वाले सिटी के प्रतिनिधि मंडल ने सरकार के सभी स्तरों के बीच सहयोग, भागीदारी और फंडिंग सहयोग की अत्यंत आवश्यकता के बारे में सीधे सालिसिटर जनरल से बात की थी, ताकि सिटी ऑफ ब्रैम्पटन और रीजन ऑफ पील (Region of Peel) में सामुदायिक सुरक्षा व स्वास्थ्य के लिए समग्र दृष्टिकोण को सक्षम किया जाए।

आज की फंडिंग संबंधी घोषणा भी कई भागीदारियों की पूर्ति करती है, जो ब्रैम्पटन के सामुदायिक सुरक्षा के प्रयासों के लिए सहायक हैं, इनमें शामिल हैं:

- क्षेत्र में पील पुलिस की मौजूदगी बढ़ाने और लोगों की देखभाल में सुधार करने के लिए डाउनटाउन ब्रैम्पटन सबस्टेशन (Downtown Brampton Substation) खोलने की पील रीजनल पुलिस की हाल ही की घोषणा
- सिटी ऑफ ब्रैम्पटन का लाइटहाउस प्रोग्राम (Lighthouse Program), जो समुदाय को पूरे समुदाय में आपातकालीन स्थितियों के दौरान धार्मिक संगठनों के परिसरों में पनाह लेने में सक्षम बनाएगा
- निरीक्षण क्षमताओं में सुधार करने के लिए 410 और 403 हाईवेज पर सी.सी.टी.वी. (CCTV) कैमरे लगाने के लिए सिटी का समर्थन

हवाले

"गैंग्स पोस्टल कोड्स की परवाह नहीं करते। यह पूरे जी.टी.ए. की समस्या है। हम कभी भी ऐसे आपराधिक संगठनों की साजिश को कम नहीं आंक सकते, जिन्हें अच्छी तरह से पता है कि किन क्षेत्रों में कम प्रतिक्रिया वाली अधिक क्षमताएं हैं। मैं आभारी हूँ कि प्रीमियर फोर्ड और सालिसिटर जनरल जोन्स ने गन और गैंग्स संबंधी फंडिंग के लिए हमारी राय सुनी। यह एक महत्वपूर्ण साधन है, जिसकी हमारी पुलिस को ब्रैम्पटन और पील रीजन को सुरक्षित रखने के लिए आवश्यकता है।"

- पैट्रिक ब्राउन (Patrick Brown), मेयर, सिटी ऑफ ब्रैम्पटन और मेम्बर, पील सर्विसिज बोर्ड

"आप सुरक्षित स्ट्रीट्स के बिना शानदार शहर का निर्माण नहीं कर सकते। गन और गैंग गतिविधि में हाल ही की वृद्धि को शुरू होने से पहले ही रोकने की आवश्यकता है। ऐसा केवल तभी हो सकता है, जब सरकार के सभी विभाग मिलकर काम करें। यह फंडिंग घोषणा, पील रीजनल पुलिस को वह संसाधन प्रदान करने में सहायक होगी, जिनकी उन्हें ब्रैम्पटन के लोगों को अधिक सुरक्षित रखने के लिए आवश्यकता है।"

- शार्मेन विलियम्स (Charmaine Williams), सिटी काउंसलर और चेयर, ब्रैम्पटन कम्युनिटी सेफ्टी एडवाइजरी कमेटी

"स्वस्थ और सुरक्षित शहर का समर्थन करने के लिए सही वातावरण पैदा करना, उन सभी कार्यों के लिए महत्वपूर्ण है, जो हम इस महत्वपूर्ण टर्म ऑफ काउंसिल प्रायोरिटी को आगे बढ़ाने के लिए करते हैं। हमारे समुदाय को अधिक सुरक्षित बनाने के लिए सही दिशा में उठाया जाने वाला हर

कदम, हमारे निवासियों, स्टैकहोल्डरों और निवेशकों के विश्वास को बढ़ाने में सहायक होगा। साथ ही, यह हमारे शहर की लंबी-अवधि की सफलता और खुशहाली का मार्ग प्रशस्त करेगा।"

- डेविड बैरिंक (David Barrick), चीफ एडमिनिस्ट्रेटिव अफसर

-30-

कैनेडा में सबसे अधिक तेजी से बढ़ने वाले शहरों में से एक के तौर पर, ब्रैम्पटन 650,000 लोगों और 70,000 कारोबारियों का घर है। हम जो भी करते हैं, लोगों को ध्यान में रखते हुए करते हैं। हम अपने विविध समुदायों से उत्साहित होते हैं, हम निवेश को आकर्षित करते हैं और हम तकनीक और वातावरण संबंधी नवीनता को आगे बढ़ाने के सफर पर हैं। हम एक ऐसा स्वस्थ शहर बनाने में प्रगति के लिए सहभागिता करते हैं, जो सुरक्षित, स्थिर व सफल हो। हमारे साथ [Twitter](#), [Facebook](#), और [Instagram](#) पर जुड़ें। www.brampton.ca पर और जानें।

मीडिया संपर्क

मोनिका दुग्गल (Monika Duggal)

कोऑर्डिनेटर, मीडिया एंड कम्युनिटी एन्गेजमेंट

स्ट्रैटजिक कम्युनिकेशन

सिटी ऑफ ब्रैम्पटन

905-874-3426 | Monika.Duggal@brampton.ca